

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 373 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई 2019—आषाढ़ 25, शक 1941

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 12 जुलाई 2019

#### अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-26/2019/18.—छ.ग. नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, नगर पंचायत चिखलाकसा, जिला-बालोद के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्वारा अवधारित करता है :—

1. चिखलाकसा नगर पंचायत को 15 वार्डों में विभाजित करता है और अनुसूची में दर्शाये अनुसार ऐसे प्रत्येक वार्ड की सीमा निर्धारित करता है।

2. यह अधिसूचित करता है कि ऐसे प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित किया जाएगा ।

### अनुसूची

वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1	डॉ. अम्बेडकर वार्ड
2	गुरु घासीदास वार्ड
3	अटल वार्ड
4	हनुमान वार्ड
5	शहीद वीरनारायण वार्ड
6	शिव वार्ड
7	सुभाषचन्द्र वार्ड
8	जवाहरलाल वार्ड
9	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
10	इंदिरा कालोनी वार्ड
11	मथुरा नगर वार्ड
12	तिलक नगर वार्ड
13	सरदार पटेल वार्ड
14	झरन माता वार्ड
15	महात्मा गांधी वार्ड

### चिखलाकसा नगर पंचायत के वार्डों की चतुर्सीमा का विवरण

#### वार्ड क्रमांक 01 :- डॉ. अम्बेडकर वार्ड

- उत्तर - खेमन बाई के घर से बिटाल मार्ग पार करके पंचराम के घर तक ।  
 पूर्व - पंचराम के घर से जनक कुमारी घर तक ।  
 दक्षिण - जनक कुमारी के घर से राजाराम एवं माधव राम के घर होते हुए राजीम बाई कुरेटी के घर तक ।  
 पश्चिम - राजीम बाई कुरेटी के घर से गली होते हुए बिटाल मार्ग पार करके खेमन बाई के घर तक ।

#### वार्ड क्रमांक 02 :- गुरु घासीदास वार्ड

- उत्तर - कारुटोला रोड रेल्वे लाईन से होते हुए पुष्पा मेश्राम के घर तक ।  
 पूर्व - पुष्पा मेश्राम के घर से फूलसिंह सोरी के दुकान एवं कारुटोला मार्ग पार करते हुए ब्लू स्टार पेट्रोल पम्प, नाला पार करके मुख्य मार्ग में उत्तमचंद जैन के घर तक ।  
 दक्षिण - उत्तम चंद के घर से सीमेंट कांक्रीट रोड के किनारे किनारे होते हुए शिवदास काम्बले के घर तक ।  
 पश्चिम - शिवदास काम्बले के घर से रेल्वे लाईन के किनारे किनारे कृषि भूमि होते हुए कारुटोला रोड में रेल्वे लाईन तक ।

**वार्ड क्रमांक 03 :- अटल वार्ड**

- उत्तर - मेन रोड के पास स्थित मुक्तिधाम के पीछे नाला के किनारे किनारे होते हुए गैदू हल्बा के घर तक।
- पूर्व - गैदू हल्बा के घर से खसरा नम्बर 323 कृषि भूमि होते हुए नगर पंचायत चिखलाकसा मार्ग पार करके नाला किनारे किनारे होते हुए पशीने पोल्द्री फार्म तक।
- दक्षिण - पशीने पोल्द्री फार्म से राम इंजीनियर के घर से होते हुए मेन रोड में सिद्धि विनायक खाद बीज दुकान तक।
- पश्चिम - मेन रोड में सिद्धि विनायक खाद बीज दुकान से ज्योति हास्पिटल होते हुए बालोद मार्ग के किनारे एवं अटल चौक पार करके मेन रोड के पास स्थित मुक्ति धाम तक।

**वार्ड क्रमांक 04:- हनुमान वार्ड**

- उत्तर - कमलेश लटिया के घर से खसरा नम्बर 426 कृषि भूमि से जगराम उर्वशा के घर से होते हुये रमेशचंद जैन के घर तक।
- पूर्व - रमेशचंद जैन के घर तक होते हुए संतोष कुमार देवांगन के घर तक।
- दक्षिण - संतोष कुमार देवांगन के घर से चिखलाकसा बस्ती में महेन्द्र सिंह ब्रोका के घर से होते हुए स्थित कला मंच के पास हल्बा भवन तक।
- पश्चिम - हल्बा भवन से हनुमान मंदिर नगर पंचायत काम्पलेक्स होते हुए नाला के पास खसरा नम्बर 340 से 426 कमलेश लटिया के घर तक।

**वार्ड क्रमांक 05 :- शहीद वीरनारायण वार्ड**

- उत्तर - धनजय आर्य के घर से खसरा नम्बर 460 से खसरा नम्बर 1397 तक कृषि भूमि होते हुए नया तालाब के उस पार जगे सिंह टेकाम के घर तक।
- पूर्व - जगेसिंह टेकाम के घर से खसरा नम्बर 860 से 1021 तक कृषि भूमि होते हुए कृपाराम उर्वशा के घर तक।
- दक्षिण - कृपाराम उर्वशा के घर से शिव मंदिर के पास देवीलाल साहू घर तक।
- पश्चिम - देवीलाल साहू घर से होते हुए झुमुक कोरेटी के घर से धनजय आर्य के घर तक।

**वार्ड क्रमांक 06:- शिव वार्ड**

- उत्तर - गर्वमेन्ट स्कूल से सीमेन्ट कांक्रीट रोड के किनारे किनारे संतोष किराना दुकान होते हुए नंद कुमार कुरेटी के घर तक।
- पूर्व - नंद कुमार कुरेटी के घर गली होते हुए आकाश किराना तक।
- दक्षिण - आकाश किराना से डब्लू बी.एम.रोड के किनारे होते हुए संकुल केन्द्र के पास रामचंद मसिया के घर तक।
- पश्चिम - रामचंद मसिया घर के घर से गर्वमेन्ट स्कूल तक।

**वार्ड क्रमांक 07 :- सुभाषचन्द्र वार्ड**

- उत्तर - बरन सिंह खरान्शु घर से प्रदीप गंगबोईर के पोल्ट्रीफार्म तक।  
 पूर्व - प्रदीप गंगबोईर के पोल्ट्रीफार्म से थानसिंह लटिया के घर तक।  
 दक्षिण - थानसिंह लटिया के घर से खसरा नम्बर 508 नाला के किनारे किनारे होते हुए दुर्गु कोठारी के घर तक।  
 पश्चिम - दुर्गु कोठारी के घर से खसरा नम्बर 334 एवं 336 होते हुए नाला किनारे बरन सिंह खरान्शु के घर तक।

**वार्ड क्रमांक 08:- जवाहरलाल वार्ड**

- उत्तर - अमरजीत सैनी के घर से खसरा नम्बर 1360 से 1497 तक कृषि भूमि नाला के किनारे होते हुए बारसाटोला में कृष्णा यादव के घर तक।  
 पूर्व - बारसाटोला में कृष्णा यादव के घर से खसरा नं. 1352 से खसरा नं. 1227 तक गैदलाल शर्मा के घर तक।  
 दक्षिण - गैदलाल शर्मा के घर से लेकर बी0एस0पी0 टू डी क्वार्टर न023 के सामने सुरजीत कौर के घर तक।  
 पश्चिम - सुरजीत कौर के घर से खसरा नं. 1252/4 से खसरा नं. 1223 अमरजीत सैनी के घर तक।

**वार्ड क्रमांक 09 :- लाल बहादुर शास्त्री वार्ड**

- उत्तर - ईदगाह से लेकर खसरा नम्बर 1220 से खसरा नम्बर 1221 में क्रिस्टन कब्रिस्तान तक।  
 पूर्व - क्रिस्टन कब्रिस्तान से लेकर खसरा नम्बर 1222 से खसरा नम्बर 1228 में कौशिल्या बाम्बेश्वर के घर तक।  
 दक्षिण - कौशिल्या बाम्बेश्वर के घर से बी0एस0पी0 सेक्टर रोड में गोवर्धन मोटवानी के घर तक।  
 पश्चिम - गोवर्धन मोटवानी के घर से लेकर ईदगाह खसरा नं. 1220 तक।

**वार्ड क्रमांक 10:- इंदिरा कालोनी वार्ड**

- उत्तर - शासकीय हास्पीटल, चिखलाकसा से खसरा नं. 1095 से 1219 तक नाला के किनारे किनारे होते हुए रामनाथ के घर से शासकीय हास्पीटल क्वार्टर होते हुए पाठक डेयरी तक।  
 पूर्व - पाठक डेयरी से होते हुए डॉ.मथाई भवन तक।  
 दक्षिण - डॉ. मथाई भवन से निर्मला शुक्ला के मकान होते हुए मार्थोमा चर्च तक।  
 पश्चिम - मार्थोमा चर्च से शासकीय हास्पीटल चिखलाकसा तक।

**वार्ड क्रमांक 11 :- मथुरा नगर वार्ड**

- उत्तर - उप स्वास्थ्य केन्द्र से खसरा नं. 472 से 803 तक नाला के किनारे होते हुए अनिता उपाध्याय के घर तक।  
 पूर्व - अनिता उपाध्याय के घर से खसरा नं. 803 से 770 तक निर्मला स्कूल भवन तक।  
 दक्षिण - निर्मला स्कूल भवन से खसरा नं. 710 से 698 तक, भुट्टो के घर से होते हुए सुद्धू राम के घर तक।  
 पश्चिम - सुद्धू राम के घर से लेकर उप स्वास्थ्य केन्द्र तक।

**वार्ड क्रमांक 12 :- तिलक नगर वार्ड**

- उत्तर - मेन रोड में स्थित पटेल टिम्बर्स से गली होते हुए बृज लाल बिहारी के घर तक।  
 पूर्व - बृज लाल बिहारी के घर से खसरा नं. 484 से 494 तक, होते हुए बिन्दु तुली के घर तक।  
 दक्षिण - बिन्दु तुली के घर से गली मार्ग होते हुए एम.के.रेड्डी के दुकान तक।  
 पश्चिम - एम.के.रेड्डी के दुकान से लेकर मेन रोड में स्थित पटेल टिम्बर्स तक।

**वार्ड क्रमांक 13 :- सरदार पटेल वार्ड**

- उत्तर - एस.बी.आई. ए.टी.एम. से सेवा ओबराय के बाड़ी होते हुए अत्तर सिंह के घर तक।  
 पूर्व - अत्तर सिंह के घर से खसरा नं. 692 से 683 तक कृषि भूमि होते हुए मनोरमा बाई पटेल के घर तक।  
 दक्षिण - मनोरमा बाई पटेल के घर से गली होते हुए मेन रोड में मोजेश भवन तक।  
 पश्चिम - मेन रोड में मोजेश भवन से एस.बी.आई. ए.टी.एम. तक।

**वार्ड क्रमांक 14 :- झरन माता वार्ड**

- उत्तर - हनस मरकाम के घर से होते हुए खसरा नं. 127 से 161 तक कृषि भूमि होते हुए सरोज सिंह के घर तक।  
 पूर्व - सरोज सिंह के घर से खसरा नं. 514 से 566 तक कृषि भूमि होते हुए भोयरटोला रंगमंच तक।  
 दक्षिण - भोयरटोला रंगमंच से खसरा नं. 559 से 114 तक कृषि भूमि होते हुए रामायण के घर तक।  
 पश्चिम - रामायण के घर से खसरा नं. 120 से 108 तक एवं 33 से 36 तक हनस मरकाम के घर तक।

**वार्ड क्रमांक 15 :- महात्मा गांधी वार्ड**

- उत्तर - कल्याण सिंह कोमर्रा के घर से खसरा नं. 93 से 85 तक कृषि भूमि होते हुए तिलक के घर तक।  
 पूर्व - तिलक के घर से सी.सी. रोड, कारुटोला में स्थित रंगमंच होते हुए गंगाराम के घर तक।  
 दक्षिण - गंगाराम के घर से खसरा नं. 59 कृषि भूमि तक।  
 पश्चिम - खसरा नं. 59 कृषि भूमि से खसरा नं. 92, खसरा नं. 60, खसरा नं. 72 कृषि भूमि होते हुए कल्याण सिंह कोमर्रा के घर तक।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
 आर. एक्का, उप सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई 2019

क्रमांक एफ 1-26/2019/18.-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-26/2019/18 दिनांक 12.07.2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
 आर. एक्का, उप सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar the 12th July 2019

NOTIFICATION

No. F 1-26/2019/18.—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 29 of the chhattisgarh municipalities act 1961 (No.37 of 1961) the State Government hereby determine the extent of wards of Nagar Panchayat Chikhlakasa Distt Balod as per shedule given Below :-

1. Divides Nagar Panchayat Chikhlakasa into 15 wards and described the limits of each ward as shown in schedule.
2. Notified that one councilor shall be elected from each such ward.

SCHEDULE

S.No.of ward	Name of the ward
1	DR.AMBEDKAR WARD
2	GURU GHASHIDAS WARD
3	ATAL WARD
4	HANUMAN WARD
5	SAHID VEERNARAYAN WARD
6	SHIV WARD
7	SHUBHAS CHANDRA WARD
8	JAWAHARLAL WARD
9	LAL BAHADUR SHASTRI WARD
10	INDRA COLONY WARD
11	MATHURA NAGAR WARD
12	TILAK NAGAR WARD
13	SARDAR PATEL WARD
14	JHARAN MATA WARD
15	MAHATMA GANDHI WARD

**Descriptions of the Boundries of ward of Nagar Panchayat Chikhlakasa**

**WARD NO. 01 DR.AMBEDKAR WARD**

- North :- From House of Kheman Bai Across to Bitar Road to House of Panchram.  
 East :- From House of Panchram to Janak kumari house.  
 South :- From House of Janak kumari to Rajaram and Madhav Ram to House Of Rajimbai Kureti.  
 West :- From House of Rajim Bai Kureti to Across Bitar Road to House of Kheman Bai.

**WARD NO. 02 GURU GHASHIDAS WARD**

- North :- Karutola Road to Railway Line to House Of Pushpa Meshram  
 East :- From House of Pushpa Meshram to Shop of Phool Singh Sori and A Cross Road Karutola Blue Star Petrol Pump, A Cross drain Main Road to House of Uttamchand Jain.  
 South :- From House of Uttamchand Jain to Cement Concrete Road to from House of Shivdas Kambley.  
 West :- From House of Shivdas Kambley to Railway Line to Agriculture Land to Karutola Road from Railway Line.

**WARD NO. 03 ATAL WARD**

- North :- Beside of Muktidham Near Main Road side of drain to House Of Gaindu Halba.  
 East :- From House of Gaindu Halba to Kh. No. 323 Agriculture Land of Side to Nagar Panchayat Across Road of Chikhlakasa Road to Side of drain to Pashine Poultry Farm.  
 South :- Pashine Poultry Farm to House of Ram Eng. House from, Main Road to House of Shiddhi Vinayak compost seeds shop.  
 West :- Main Road to Shiddhi Vinayak compost seeds shop to Jyoti hospital, Balod Road Corner and A Cross of Atal Chowk Near Main Road, beside Muktidham.

**WARD NO. 04 HANUMAN WARD**

- North :- From House of Kamlesh Latiya Kh. No. 426 Agriculture Land to house of Jagram urvasha According to House of Ramesh chand jain.  
 East :- From House of Rameshchand Jain According to House of Santosh Kumar Dewangan.  
 South :- From House of Santosh Kumar Dewangan, Chikhlakasa Basti to House of Mahendra Singh Broka According to located Kala Manch Near by Halba Bhavan .  
 West :- Halba Bhavan Chikhlakasa Basti to HanumanMandir Nagar Panchayat Complex According to near to Nala Kh. No. 340 to 426 House of Kamlesh Latiya.

**WARD NO. 05 SAHID VEERNARAYAN WARD**

- North :- From House of Dhanjay Arya Kh. No. 460 to Kh. No.1397 to Agriculture Land According to Naya Talaab Up to the Crossing House of Jage Singh Tekam.  
 East :- From Jage Singh Tekam house to Kh. No. 860 to 1021 Agriculture Land House of the Kriparam Urvasha.  
 South :- From House of the Kriparam urvasha Near Shiv Mandir House of Devilal sahu.  
 West :- Near Shiv Mandir House of Devilal to House of According to House of Dhanjay Arya.

**WARD NO. 06 SHIV WARD**

- North :- Government school to cement concrete Road corner to Corner Santosh Kirana Stores According to House of Nand Kumar Kureti.
- East :- From House of Nand Kumar Kureti a Cross Lane House of Akash Kirana.
- South :- From House of Akash Kirana to W.B.M. Road Corner to Sankul Kendra Near by house of Ramchand Mashiya.
- West :- House of Ramchand Mashiya to Government school .

**WARD NO. 07 SHUBHAS CHANDRA WARD**

- North :- From House to Baran singh Kharanshu corner to corner Kh. No. 1052 To 1053 Pradeep Gangboiyer Poltriform.
- East :- From Pradeep Gangboiyer Poltriform to House of Thansinghlatiya.
- South :- House of Thansingh latiya Kh. No. 508 Nala corner to corner According to House Of Durgu Kothari.
- West :- From House of Durgu Kothari Kh. No. 334 to 336 to According to Near Nagar Panchayat corner to house of Baran singh Kharanshu

**WARD NO. 08 JAWAHARLAL WARD**

- North :- From House of Amarjeet Saini Kh.No.1360 to 1497 Agriculture Land Corner to Nala to Barsatola, House of Krishna Yadav.
- East :- Barsatola to House of Krishna Yadav to Kh. No. 1352 to 1227, House Of Gaiind lal Sharma
- South :- House Of Gaiindlal Sharma to B.S.P.2D. type Quater No. 23, Infront Of House of Surjeet Kaur.
- West :- From House of Surjeet Kaur Kh. No. 1252/4 to Kh.No. 1223, House of Amarjeet Saini.

**WARD NO. 09 LAL BAHADUR SHASTRI WARD**

- North :- From Idgah to Kh. No. 1220 to 1221, from Christian Kabristan.
- East :- From Christian Kabristan to Kh. No. 1222 to 1228 from House of Kaushilya Bambeshwar.
- South :- From House of Kaushilya Bambeshwar to B.S.P. Sector Road to House of Gowardhan Motwani.
- West :- From House of Gowardhan Motwani to Idgah Kh. No. 1220.

**WARD NO. 10 INDRA COLONY WARD**

- North :- Government Hospital Chikhlakasa to Kh. No. 1095 to 1219 Nala Corner to corner from House of Ramnath to Government Hospital quarter to Pathak Dairy.
- East :- Pathak Dairy to Dr Mathai Bhavan .
- South :- Dr. Mathai Bhavan to Nirmala Shukla Bhavan According to Marthoma Church.
- West :- Marthoma Church to Government Hospital Chikhlakasa.



**WARD NO. 11 MATHURA NAGAR WARD**

- North :- From Sub Health Center to Kh. No. 472 to 803 corner to nala House of Anita Upadhyay.
- East :- From House of Anita Upadhyay. to Kh. No. 803 to 770 from Nirmala School Building .
- South :- From the Nirmala School building to Kh. No. 710 to 698 from House of Bhutto According to Suddhu Ram .
- West :- From House of Suddhu Ram to Sub Health Center.

**WARD NO. 12 TILAK NAGAR WARD**

- North :- From Patel Timbers, Main Road to Brij Lal Bihari House. Through Street Road.
- East :- From House of Brij Lal Bihari House, Main Road to Bindu Tuli House via kh. no 484 to 494 kh no.
- South :- From House of Bindu Tuli House to M.K.Reddy Shop. Through Street Road.
- West :- From M.K.Reddy Shop to Patel Timbers, Main Road.

**WARD NO. 13 SARDAR PATEL WARD**

- North :- From SBI ATM to Sewa Oberoy Badi to Attar Singh House.
- East :- From House of Attar Singh to Kh. No. 692 to 683 Agriculture Land to Manorama Bai Patel House.
- South :- From House of Manorama Bai Patel House to Mojesh Bhavan, via main road.
- West :- From House of Mojesh Bhavan to SBI ATM.

**WARD NO. 14 JHARAN MATA WARD**

- North :- From House of Hanas Markam to Kh.No. 127 to 161 Agriculture Land To Saroj Singh House.
- East :- From House of Saroj Singh to Kh. No. 514 to 566 Agriculture Land to Bhoyartola Rangmanch.
- South :- From Bhoyartola Rangmanch to Kh. No.559 to 114 to Ramayan House.
- West :- From House of Ramayan to Kh. No. 120 to 108, Kh. No. 33 to 36 to Hanas Markam House.

**WARD NO. 15 MAHATMA GANDHI WARD**

- North :- From House of Kalyan Singh Komarra to Kh. No. 93 to 85 Agriculture Land to Tilak House.
- East :- From House of Tilak to C.C.Road, Rang Manch located at Karutola to Gangaram House.
- South :- From Gangaram House to Khasra no.59 Agricultural Land.
- West :- From Kh.No. 59 Agricultural Land to Kharsa no.92, Khasra no. 60, Khasra no.72 Agriculture Land to Kalyan Singh Komarra House.

By order & In the name of Governor of Chhattisgarh,  
R. EKKA, Deputy Secretary.